



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 130) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

(सं0 2/सी0-10186/2006 का0 1554)
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प
12 मार्च 2009

श्री भुवनेश्वर ओझा, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-185/04, 83/08 तत्कालीन सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग सम्प्रति उप सचिव-सह-निदेशक (स्थानीय निकाय) नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के विरुद्ध आदेश की अवहेलना, अनुशांसा नहीनता, कर्तव्यहीनता एवं इन्डार्वार्डिनेशन की परिचय देने के प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4241 दिनांक 19.04.07 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना को नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच आयुक्त बिहार पटना के पत्रांक-829/सी0डी0ई0 दिनांक 15.10.2008 द्वारा श्री ओझा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ। विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं सुसंगत कागजातों के पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार श्री ओझा को "निन्दन" वर्ष 2006-07 को दंड संसूचित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री भुवनेश्वर ओझा, बि0प्र0से0 उप सचिव-सह-निदेशक (स्थानीय निकाय) नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 130-571+10-डी0टी0पी0।